

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 17.06.2022

चोरी करते हुए शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी करने वाला औजार व चोरी का नगदी रुपया बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैम्पिंगरंज के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रदीप कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 17.06.2022 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी मजनु उ०नि० गुरु प्रसाद मय हमराह कर्मचारीगण द्वारा जनता की सूचना पर किसान सेवा केन्द्र दहला पहुँचकर पेट्रोल पम्प से समय करीब 04.00 बजे चोर कर्मवीर प्रसाद S/O स्व० रामआसरे नि० राजावारी थाना पीपीगंज गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी की तहरीर पर दिनांक 17.06.2022 को समय 14.03 बजे मु०अ०सं० 211/2022 धारा 457, 380, 511 भादवि में पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण:— श्री रामसिंह पुत्र स्व० भागीरथी सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के द्वारा थाना स्थानीय पर अभियुक्त कर्मवीर प्रसाद S/O स्व० रामआसरे नि० राजावारी थाना पीपीगंज गोरखपुर द्वारा उनके दहला स्थित किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प पर चोरी करते हुए पेट्रोल पम्प के कर्मचारियों व पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

किसान सेवा केन्द्र दहला पेट्रोल पम्प से , समय 04.00 बजे दिनांक 17.06.2022

बरामदगी का विवरण:—

1. 3090/- रुपया व 2. एक अदद सब्बल

अभियुक्त का विवरण ---

कर्मवीर प्रसाद पुत्र स्व० रामआसरे निवासी राजावारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 211/2022 धारा 457, 380, 511 भादवि व
2. मु०अ०सं० 100/22 धारा 457, 380 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 411 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1- उ०नि० गुरु प्रसाद थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 2- का० घनश्याम कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 3- का० आनन्द कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- 4- का० पवन कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर